

ACTIVITY REPORT

World Pulses Day – 2022

Academic Year: 2021-22

Department: Botany Department (Botanical Society) in collaboration with Environment Health and Safety (EHS) Committee, ANC.

Name of the Activity: World Pulses Day 2022.

Duration of the Activity: 01 Day

Date of the Activity: 10th February, 2022.

Venue: Online Mode (Google Form) Presentation and Quiz

<https://docs.google.com/forms/d/1MgTYvfUQUpKeG5aSgANzgbMKmyb1ac7YDFfGwEvdZMc/edit?usp=sharing>

Coordinator: Dr. P. J. Wagh

Objective: To create awareness about the role of Pulses in the diet and its cultivation in achieving the goal of sustainable agrifood systems through presentation and quiz.


Number of Participants: 267

Outcomes:

- 76% participants were not aware of importance of pulses in securing health, nutrition and hunger of the world prior to this activity.
- 96.6% participants mentioned that the presentation made during the activity helped them to get aware about importance of pulses in healthy world and promoting sustainable agriculture.


Principal
Anand Niketan College,
Warora




 Prashant Wagh
Feb 10

Dear students,
Participate in the College activity.




WORLD PULSES DAY - 10t...
<https://forms.gle/6cgd8gr7Nq1d>



MAHAROGI SEWA SAMITI, WARORA
ANAND NIKETAN COLLEGE, ANANDWAN
NAAC REACCREDITED WITH B++ GRADE
BOTANICAL SOCIETY
In Association with
ENVIRONMENT, HEALTH AND SAFETY COMMITTEE
INTERNATIONAL LEVEL QUIZ
EHS Committee ANAND NIKETAN COLLEGE
TO CELEBRATE
WORLD PULSES DAY
10th FEBRUARY, 2022
ORGANIZING COMMITTEE
Dr. PRASHANT WAGH CONVENOR Dr. MRUNAL KALE PRINCIPAL, ANC, ANANDWAN
Link for participation in the Quiz: <https://forms.gle/6cgd8gr7Nq1dfpgE8>


Did you aware of the importance of Pulses in securing health, nutrition and hunger of the world prior to this activity? क्या आपने इस गतिविधि से पहले दुनिया के स्वास्थ्य, पोषण और भूख को सुरक्षित रखने में दलहन के महत्व के बारे में पता किया था?

267 responses



Did this presentation and activity help you to become aware about the importance of pulses? क्या इस प्रस्तुति और गतिविधि ने आपको दालों के महत्व के बारे में जागरूक होने में मदद की?







267 responses



MAHAROGI SEWA SAMITI, WARORA
ANAND NIKETAN COLLEGE, ANANDWAN
NAAC RE-ACCREDITED B⁺⁺ GRADE

CERTIFICATE

This Certificate is presented to
Namrata Mulchand Raut
of
Vinayak Vidnyan Mahavidyalay Nandgaon Khandeshwar, Maharashtra
for successful completion of International Level Online Quiz entitled
'Introduction and Importance of Pulses', organized on the occasion of
WORLD PULSES DAY-10TH FEBRUARY, 2022
scoring 100% marks.



MAHAROGI SEWA SAMITI, WARORA
ANAND NIKETAN COLLEGE, ANANDWAN
NAAC RE-ACCREDITED B⁺⁺ GRADE

CERTIFICATE

This Certificate is presented to
Dr. Sivaprasad Hari
of
Netaji Subhashchandra Science College, Mulchera, Maharashtra
for successful completion of International Level Online Quiz entitled
'Introduction and Importance of Pulses', organized on the occasion of
WORLD PULSES DAY-10TH FEBRUARY, 2022



MAHAROGI SEWA SAMITI, WARORA
ANAND NIKETAN COLLEGE, ANANDWAN
NAAC RE-ACCREDITED B⁺⁺ GRADE

CERTIFICATE

This Certificate is presented to
Neha Kumari
of
Govt.R.R.M PG College surajpur (c.g.), Chhattisgarh
for successful completion of International Level Online Quiz entitled
'Introduction and Importance of Pulses', organized on the occasion of
WORLD PULSES DAY-10TH FEBRUARY, 2022
scoring 90% marks.

Dr. Prashant J. Wagh
Convener

Dr. Mrunal C. Kale
Principal

Certificate ID:EVDZMC-CE000059

Made for free with Certify'em

